



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]
No. 76]नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003/माघ 29, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2003/MAGHA 29, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 111(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे ।

उन आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2003 है ।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

1. परिशिष्ट ख में, मद क.32. खनिज जल,-

(I) सारणी में, क्रम सं0 37 नाशक जीवमार अवशिष्ट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(37)(i) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट — 0.0001मिग्रा./लीटर
(अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) ।

(ii) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट — 0.0005मिग्रा./लीटर
(अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) ।

(II) लेबल लगाने का प्रतिषेध से संबंधित पैरा 5 के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4क. अनुज्ञापन शर्त :- विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और पीएफए प्राधिकारियों से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार भूमिगत जल प्राधिकरण से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा”।

2. क.33 पैक किया गया पेयजल (खनिज जल से भिन्न),-

(I) सारणी में, क्रम सं0 40 नाशक जीवमार अवशिष्ट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(40)(i) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट — 0.0001मिग्रा./लीटर
(अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) ।

(ii) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट — 0.0005मिग्रा./लीटर
(अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) ।

(II) लेबल लगाने का प्रतिषेध शीर्षक से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अनुज्ञापन शर्त :— विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और पीएफए प्राधिकारियों से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार भूमिगत जल प्राधिकरण से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा”।

[सं. पी. 15014/12/2003-पीएच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 853(अ), दिनांक 30-12-2002 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2003

G.S.R. 111(E).— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposed to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, (37 of 1954), is hereby published as required by said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (.....Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on 1.4.2003.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rule (hereinafter referred to as said rules),-

1. In Appendix B, in item A.32 Mineral Water,-

(I) in the table for Sl.No. 37.Pesticide Residue and entries thereto, the following shall be substituted, namely,-

"(37)(i) Pesticide residues considered individually - 0.0001 mg/litre
(The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein above).

(ii) Total pesticide residues - 0.0005 mg/litre
(The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein above)";

(II) before paragraph 5 relating to labelling prohibitions, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"4A. Licencing condition :- The manufacturer shall produce a no objection certificate from Central Government / State Government Ground Water Authority for obtaining licence from BIS and PFA Authorities".

2. A.33 Packaged Drinking Water (other than Mineral Water),-

(I) In the table for Sl.No. 40.Pesticide Residue and entries thereto, the following shall be substituted, namely,-

"40 (i) Pesticide residues considered individually - 0.0001 mg/litre
(The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein above).

(ii) Total pesticide residues - 0.0005 mg/litre
(The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein above)";

(II) before the heading labelling prohibitions, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"Licencing condition :- The manufacturer shall produce a no objection certificate from Central Government / State Government Ground Water Authority for obtaining licence from BIS and PFA Authorities".

[No. P.15014/12/2003-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 853(E) dated 30-12-2002.